

Date: 3 September, 2019
जिंदल पोली इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
1659231P2012PLC051433

जिंदल पोली इन्व्स्टमेंट्स लि.
सीआईएन : L65923UP2012PLC051433
पंजीकृत कार्यालय : 19वां के एम, हापुड बुलंदशहर रोड,
पी.ओ. गुलाबरी, जिला बुलंदशहर - 203408 (उत्तर प्रदेश)
प्रधान कार्यालय : प्लॉट नंबर 12, लोकल शांति कॉम्प्लेक्स,
सेक्टर नं. 1, बसंत कुंज, नई दिल्ली 110070
फोन : 011-26139256 (10 लाईन्स) फैक्स : 91-11-26125739
वेबसाइट : www.jpifcl.com; ई-मेल : cs_jpifcl@jindalgroup.com

छठी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

छठी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि जिल्दल पोली इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड की छठी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बृहस्पतिवार, 27 सितम्बर, 2018 को दोपहर 12.30 बजे 19वां को.एम., हापुड बुलडशहर रोड, पी.ओ. गुलाबदी, जिला बुलडशहर (उप्र.-203408) में आयोजित की जाएगी। बैठक में निष्ठादि कि जाने वाले कार्य के उल्लेखयुक्त सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु वित्तीय विवरण, बॉर्डर रिपोर्ट इत्यादि युक्त वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को, जिनका सदस्यों का नाम 17 अगस्त, 2018 को सदस्यों की पंजिका में मौजूद होने के आधार पर, ई-मेल द्वारा उनकी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर 03 सितम्बर, 2018 को तथा जिनकी मेल आईडी की सूचना प्राप्त करने के लिए पंजीकृत नहीं है, उन सभी सदस्यों को, अनुमत विधि द्वारा, 01 सितम्बर, 2018 को, उनके पंजीकृत पते पर भेजी जा चुकी है तथा हमारी वेबसाइट www.jpifcl.com के इन्वेस्टर सेक्शन पर भी उपलब्ध होगी।

को, उनके पंजीकृत पत्र पर भोजी का बुका है तथा वे पत्रों को, उनके पंजीकृत पत्र पर भोजी का बुका है तथा वे पत्रों को, उनके पंजीकृत पत्र पर भोजी का बुका है

लगी, परिवर्तित, हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
कम 48 घंटे पूर्व जमा की जानी चाहिए।
एतद्द्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी
(प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा सेवा (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण
अपेक्षाएं) नियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों की पंजीकृत तथा शेयर
अवधारण बहियां मंगलवार, 25 सितम्बर, 2018 से बृहत्सप्ताह, 27 सितम्बर, 2018 तक (दोनों तिथियों सहित)
कम्पनी की एजीएम में वोट देने के लिए सदस्यों के अधिकांश निर्धारण के लिए बंद रहेंगी।
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014,
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षा
नियम 20 के अनुसरण में समय पर संशोधितानुसार तथा सेवा (विनियमन) के सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा
विनियमावली, 2015 के विनियम 44, के अनुसरण में, कम्पनी इसके सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क
प्रदान कर रही है। कम्पनी द्वारा इसके सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क
प्रधान कार्यकारी अधिकारी के निर्देशों के अनुसार सदस्यों की प्राप्ति निर्धारण हेतु विच्छेदित तिथि (कट-ऑफ
दिनांक) के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

- i) कम्पनी द्वारा, ई-वोटिंग के लिए सदस्य को कोई व्यक्ति, जो सूचना प्रेषण के उपरान्त संपन्न जमाने में "ऑफ ड्यूटी" शुरूवार, 21 सितम्बर, 2018 होगी। कोई व्यक्ति, जो सूचना प्रेषण के उपरान्त संपन्न जमाने में "ऑफ ड्यूटी" शुरूवार, 21 सितम्बर, 2018 होगी। और विच्छेदन तिथि ("कट-ऑफ डेट") को शेरार भाग करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि ("कट-ऑफ डेट") को शेरार भाग करता है, फॉलोय नंबर /डीपीआईडी तथा वलाइड आईडी का उल्लेख करते हुए evothing@karvy.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए कार्की के साथ पहले से पंजीकृत है, तब मौजूदा यूजर आईडी है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए कार्की के साथ पहले से पंजीकृत नहीं है, तब मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।
 - ii) ई-वोटिंग सोमवार, 24 सितम्बर, 2018 को (पूर्वा. 9.00 बजे) आरंभ होगी तथा बुधवार, 26 सितम्बर, 2018 को (अप. 5.00 बजे) समाप्त होगी। इस अवधि में सदस्यगण अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। तत्पश्चात कार्की द्वारा ई-वोटिंग माईपूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
 - iii) वार्तिक सामान्य मतदान (एजीएम) में मतपत्र के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में भाग ले रहे सदस्य, जिन्होंने रिमाइट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, एजीएम में मतपत्र के माध्यम से वोट डाल सकते हैं। तथापि, यदि किसी सदस्य ने इलेक्ट्रॉनिक विधि के साथ साक्ष्य मतपत्र द्वारा भी वोट डाला है, तब मतपत्र द्वारा डाले गए वोट की अनदेखी की जाएगी।
 - iv) ई-वोटिंग के संबंध में किसी संदेह की स्थिति में, कृपया कार्की की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध हेल्प एवं एफएक्वैज सेवरन देखें।
 - v) सदस्यगण श्री सुरेश डी. बाबू, उप प्रबंधक, कार्की सेलेनिंग टावर बी, छठा तल, प्लॉट 31-32, गांधीबाबावी, हैदराबाद-500032 को कॉल करें अथवा कंपनी नंबर 040-67161500 पर सम्पर्क करें।

करें अथवा तेल फ्री नंबर 1800 42 42 42 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त करें।

प्रस्तावों के संबंध में परिणामों की घोषणा कम्पनी की छठी वार्षिक सामान्य बैठक के तहत 2020-21 के वित्त वर्ष के अंत में की जाएगी।

अधिकतम 48 घंटे के भीतर कर दी जाएगी। तथापि, परिणाम एवं सर्वेक्षण के विवरणों की रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट (www.jpifcl.com) पर, कार्वा की वेबसाइट (<https://evoting.karvy.com>) पर तथा कम्पनी के कारपोरेट कार्यालय में सदस्यों की सूचनार्थ प्रकाशित की जाएगी तथा उसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज को भी दी जाएगी।

क्या है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (EVP) एक ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली है, जिसके माध्यम से मतदाता अपने वोटों को ऑनलाइन डाल सकते हैं।


वास्ते जिंदल पोली इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फाइनैस कम्पनी लिमिटेड
हस्ता./-
गमोद कुमार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकित : 03 सितम्बर, 2018

कन्सोलिडेटेड फिनवेस्ट ऐण्ड होलिडिंग्स लिमिटेड

1	की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के अनुसार एन पी ए की तिथि के उपरांत वसुली घटाकर	14-07-2015	
2	रु. 1,04,76,659.83 प्लस भविष्य का ब्याज एवं खर्चें इत्यादि	25-08-2015	18-09-2018
3	रु. 3,61,92,831.72 दिनांक 31.10.2014 से भविष्य का ब्याज एवं खर्चें इत्यादि, सरफासी एक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के अनुसार	01-11-2014	19-09-2018 20-09-2018
4	रु. 5,95,75,764.00 प्लस भविष्य का ब्याज एवं खर्चें इत्यादि	05-03-2015	20-09-2018
5	रु. 20,06,60,939.36 प्लस भविष्य का ब्याज एवं खर्चें इत्यादि	27-01-2015	17-09-2018
6	रु. 2,32,92,580.61 प्लस भविष्य का ब्याज एवं खर्चें इत्यादि	22-03-2017	17-09-2018
7	रु. 8,09,94,731.51 प्लस भविष्य का ब्याज एवं खर्चें इत्यादि	17-09-2016	19-09-2018
8	रु. 9,36,33,551.60 प्लस भविष्य का ब्याज एवं खर्चें इत्यादि	06-01-2015	17-09-2018

FINANCIAL EXPRESSIONS & MARKETS 11

DIIs pour \$
far this year
flows likely

BHARADWAJ SHARMA
Mumbai, September 3

DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTORS (DIIs) have continued to invest aggressively in Indian equities, pouring a staggering \$10 billion so far this year. Total buying by DIIs in equity till August-end stood at \$10.25 billion.

In contrast, foreign portfolio investors (FPI) have pulled out nearly \$282.6 million from the equity markets during the same period, prompting some market watchers to say the FPI inflows are likely to grow further irrespective of a weak rupee.

The investment by DIIs includes mutual fund houses, banks, financial institution and insurance companies.

In July and August alone, DIIs bought stocks worth \$613.4 million and \$381.6 million respectively, while the Sensex yielded around 9.5% return. Although in April, May and June, the FPIs offloaded their holdings, in July and August they bought shares worth \$207.9 million and \$131 million respectively.

Going ahead, the FPI inflows are likely to grow further irrespective of the rupee being weak, says E Prasanth Prabhakaran, senior president and CEO at Yes Securities. So far, the rupee has depreciated 10.3% year-to-date and the Sensex has yielded a positive return of

JINDAL POLY INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD.

CIN: L65923UP2012PLC051433

Registered Office: 19th K.M., Hapur - Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Distt. Bulandshahr, Uttar Pradesh - 203408

Corporate Office: Plot no. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi - 110 070

Tel No. (011) 26139256-65; 011-40322100

E-mail Id: cs_jpifcl@jindalgroup.com; Website: www.jpifcl.com

NOTICE OF 6th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 6th Annual General Meeting (AGM) of Jindal Poly Investment and Finance Company Limited will be held on **Thursday, 27th September, 2018 at 12:30 P.M. at 19th K.M., Hapur Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Distt. Bulandshahr (U.P. - 203408).** The Notice setting out the business to be transacted at the meeting together with the Annual Report containing Financial Statements, Board Report etc. of the company for the Financial Year 2017-18 has been sent to members via email at their registered email ids on 3rd September, 2018 and via permitted mode to all members at their registered addresses whose e-mail ids are not registered for receiving communication on 01st September, 2018 on the basis of name appearing in members' register on 17th August, 2018 and the same shall be also available in the investors section on the website of the Company www.jpifcl.com.

Any such member who wishes to have a physical copy of the Annual Report may write to the company and the same would be provided free of cost. Members entitled to attend and vote is entitled to appoint a Proxy to attend and cast vote instead of himself/herself and the Proxy need not be a member of the Company. Proxies, in order to be effective, should be duly stamped, completed, signed and deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of Meeting.

NOTICE is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements), Regulations 2015, that the Register of Members and Share Transfer books of the company will remain closed from Tuesday, 25th September, 2018 to Thursday, 27th September, 2018 (both days inclusive) to determine entitlement of the members to vote at the AGM of the company. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements), Regulations, 2015 the company is offering e-voting facility to its members. The company has engaged the services of Karvy Computershare Pvt. Ltd. ("KARVY") to provide e-voting facility to the members. The details are as under:

- Cut-off date for ascertaining members eligibility to attend at vote at AGM shall be Friday, 21st September, 2018. Any person who acquires shares and becomes member of the company after dispatch of the notice and holds shares as on cut-off date, may obtain the USER ID and Password by sending a request at evoting@karvy.com by mentioning folio no./DPID and Client Id. If the member is already registered with Karvy for e-voting then existing USER ID and password can be used for casting the vote.
- The e-voting would commence on Monday, 24th September, 2018 (9:00 A.M.) and end on Wednesday, 26th September, 2018 (5:00 P.M.), during which period the members may cast their vote electronically. Thereafter, the e-voting module shall be disabled by Karvy.
- The facility for voting through Ballot Papers shall be made available at the Annual General Meeting (AGM) and the members attending AGM who have not casted their vote by remote e-voting, shall be able to vote at the venue of AGM through Ballot Paper. However, in case a member, who has casted his vote electronically as well as through ballot paper, the vote cast through ballot paper will be ignored.
- In case of any query pertaining to e-voting, please visit Help & FAQ's section available at Karvy's website <https://evoting.karvy.com>.
- Members may also write or contact Mr. Suresh D. Babu, Deputy Manager at Karvy Selenium Tower B, 6th floor, Plot 31-32, Gachibowli, Hyderabad - 500 032, Tele: 040-67161500 or call at toll free No. 1800 34 54 001.

The results on resolutions shall be declared not later than 48 hours from conclusion of the 6th Annual General Meeting of the company and the same along with the scrutinizer's report shall be placed on the company's website (www.jpifcl.com), on the website of Karvy (<https://evoting.karvy.com>) and Corporate office of the Company and would also be communicated to the Stock Exchanges.

For Jindal Poly Investment and Finance Company Limited
Sd/-

Pramod Kumar
Company Secretary
ACS-23157

Place : New Delhi
Date : 3rd Sep, 2018



Nahar SPINNING MILLS LIMITED

Regd. Office: 373, Industrial Area-A, Ludhiana-141003
CIN: L17115PB1980PLC004341

Phone No.: 0161-2600701-705, Fax No.: 0161-2661180

E-mail: secnsm@ownnahar.com, gredressalnsml@ownnahar.com
Website: www.ownnahar.com